



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

31 आषाढ़ 1937 (श0)  
(सं0 पटना 839) पटना, बुधवार, 22 जुलाई 2015

---

सं० 3ए-2-वे०पु०-05/2014-6415/वि०  
वित्त विभाग

संकल्प

20 जुलाई 2015

**विषय:-बिहार स्वास्थ्य सेवा/बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा के वेतनादि के संशोधन के संबंध में।**

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1900, दिनांक 25/02/2014 के द्वारा विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में वेतन निर्धारण एवं डायनेमिक एश्योर्ड प्रोगेशन (डी०ए०सी०पी०) के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है।

उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा 4.7(ख) में यह अंकित है कि विशेष उप संवर्ग में नियुक्त विशेषज्ञ मूल कोटि (विशेषज्ञ ग्रेड-II) के लिए वेतनमान PB-3+6600/- में की जाय।

उपर्युक्त संकल्प में अनुशंसा के अनुरूप विशेषज्ञ ग्रेड-II के लिए मूल कोटि वेतनमान PB-3+6600/- अंकित नहीं किया जा सका था जिसपर राज्य सरकार की सहमति थी।

अतः वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1900, दिनांक 25/02/2014 की कंडिका-3(III) के बाद निम्नलिखित उपनियम-3(IIIक) जोड़ा जायेगा—

“विशेषज्ञ उप संवर्ग में नियुक्त विशेषज्ञ मूल कोटि (विशेषज्ञ ग्रेड-II) के लिए वेतनमान PB-3+6600/- देय होगा”।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1900, दिनांक 25/02/2014 के अन्य प्रावधान यथावत रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
दयानिधान पंडेय,  
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 839-571+1000-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>